

आर्य , श्री लालसिंह
भारतीय जनता पार्टी
निर्वाचन क्षेत्र- गोहद (13)



पिता का नाम-	स्व. श्री फुलजारी लाल आर्य
जन्म तिथि-	15 जून, 1964
जन्म स्थान-	भिण्ड
वैवाहिक स्थिति-	विवाहित
पत्नी-	श्रीमती संध्या आर्य
संतान-	2 पुत्र , 2 पुत्रियाँ
शैक्षणिक योग्यता-	बी.ए., एल-एल.बी.
व्यवसाय-	कृषि
अभिरुचि-	समाजसेवा, खेलकूद
स्थायी पता-	नवीन कालोनी, डाक बंगला तिराहा, गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) मोबाइल-9926420001, 9713313305 ई-मेल- lalsingh.arya@mpvidhansabha.nic.in
स्थानीय पता-	बी-20, चार इमली, भोपाल (म.प्र.)दूरभाष-(0755) 2554757, 2430457

सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम-

बाल्यावस्था से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवक. 1985-86 में भा.ज.यु. मोर्चा के जिला मंत्री. 1987-99 में भा.ज.पा. अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री. 1987-88 में जीवाजी विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम के सदस्य एवं 1989 में टीम के कप्तान. सन् 1989 से 1991 तक भा.ज.पा. के जिला महामंत्री. 1990-91 में भिण्ड मेला समिति की क्रीड़ा समिति के संयोजक. 1992-1995 में भा.ज.पा. के जिलाध्यक्ष एवं 1996-97 में भा.ज.यु. मोर्चा के जिलाध्यक्ष. 1996-97 में लॉयन सेवा समिति के संरक्षक. 1998 में ग्यारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. आश्वासन समिति, प्रत्यायुक्त विधान समिति एवं अ.जा.ज.जा. तथा पिछड़ावर्ग कल्याण समिति के सदस्य एवं सभापति. 2002 में भा.ज.यु. मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य. जून 2005 से भा.ज.पा. जिला भिण्ड के अध्यक्ष. मध्यप्रदेश नशा मुक्ति बोर्ड के सदस्य. पंच-ज समिति के सदस्य (राज्य मंत्री स्तर). महर्षि अरविंद महाविद्यालय गोहद की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष. पूर्व विधान सभा सदस्यों के वेतन-भत्ते संबंधी समिति और ओरिएंट पेपर मिल अमलाई जांच समिति के सदस्य. सन् 2003 में बारहवीं विधान सभा के सदस्य निर्वाचित. वर्ष 2008 में विधान सभा द्वारा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित. भारतीय जनता पार्टी अनु.जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री.

सन् 2013 में तीसरी बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित.

सम्प्रति: राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन, विमानन, आनन्द, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.